Hindustan Media Ventures Limited

Head Office:

C-164, Sector-63, Noida

Dist. Gautam Budh Nagar UP - 201301

Ph.: 0120 - 4765650

E-mail: corporatedept@hindustantimes.com

CIN: L21090BR1918PLC000013

17th May, 2023

BSE Limited

Phiroze Jeejeebhoy Towers

Dalal Street

Mumbai - 400 001

National Stock Exchange of India Limited

Exchange Plaza, 5th Floor,

Plot No. C-1, Block G,

Bandra-Kurla Complex, Bandra (E)

Mumbai - 400 051

Scrip Code: 533217

Trading Symbol: HMVL

Sub: Newspaper advertisement- Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure

Requirements) Regulations, 2015

Re: Audited Financial Results for the quarter and financial year ended 31st March, 2023

Dear Sirs.

Please find enclosed herewith copy of relevant page of "Mint" (English) and "Hindustan" (Hindi) newspapers dated 17th May, 2023, publishing extract of Audited Financial Results for the quarter and financial year ended 31st March, 2023, upon approval by the Board of Directors at its meeting held on 16th May, 2023.

This is for your information and records.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Hindustan Media Ventures Limited

(Pumir Kumar Chellaramani)

Company Secretary

Encl.: As above

Registered Office:

Budh Marg, Patna - 800001 Ph.: 2223434, 2223772, 2223413, 2223314, 2222538

Fax: 2226120











JINDAL STEEL & POWER LIMITED

(CIN: L27105HR1979PLC009913)

Regd. Office: O. P. Jindal Marg, Hisar-125005 (Haryana) Corporate Office: Jindal Centre, 12 Bhikaiji Cama Place, New Delhi -110066 Tel: +91 11 4146 2000 | Fax: +91 11 2616 1271 | Email: jsplinfo@jindalsteel.com Website: www.jindalsteelpower.com

🎔 jsplcorporate in Jindal Steel & Power Ltd. 🎁 jsplcorporate 📭 jsplcorporate

REGULATION 47 (1)(b) and 52(8) OF SEBI (LODR) REGULATIONS, 2015

EXTRACT OF CONSOLIDATED AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED ON MARCH 31, 2023

				(Rs. i	in crores except for	Shares and EPS)
S. No.	Particulars	Quarter ended on March 31, 2023	Quarter ended on December 31, 2022	Quarter ended on March 31, 2022	Year to date ended on March 31, 2023	Year to date ended on March 31, 2022
		Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited
1	Total Income from Operations (net)	13,691.93	12,452.44	14,339.49	52,711.18	51,085.56
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	958.96	1,440.72	2,427.39	5,854.95	11,579.08
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	805.49	1,062.33	2,021.15	4,485.49	11,172.84
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	465.66	518.27	2,206.97	3,974.09	6,765.73
5	Total comprehensive income for the period [Comprising Profits /(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)	460.38	208.38	1,889.48	3,171.25	6,485.57
6	Paid up Equity Share Capital (Face Value of Re.1/- each)	100.50	100.50	101.07	100.50	101.07
7	Other equity (excluding Revaluation Reserve)	-	-	-	38606.09	35523.59
8	Earnings Per Share (Face Value of Re. 1/- each) (for continuing and discontinued operations)-					
	Basic:	4.60	5.16	14.81	39.07	56.40
	Diluted:	4.60	5.16	14.81	39.07	56.40

Notes:

1. The above is an extract of the detailed format of Audited Financial Results for the quarter and year ended on March 31, 2023, filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Audited Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2023, are available on the website of Stock Exchange(s) at (www.bseindia.com/www.nseindia.com) as well as on the Company's Website at (www.jindalsteelpower.com).

2. These Audited Financial Results have been reviewed by the Audit Committee in its meeting held on May 16, 2023 and were approved by the Board of Directors in their meeting held on May 16, 2023.

KEY NUMBERS OF FINANCI	AL RESULTS ON	<u>I STANDALONE BASIS</u>

S. No.	No. Particulars		Quarter ended on December 31, 2022	Quarter ended on March 31, 2022	Year to date ended on March 31, 2023	Year to date ended on March 31, 2022
		Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited
1	Turnover	13,402.59	11,841.91	13,859.30	51,228.99	49,533.46
2	Profit /(Loss) before Tax	1,101.83	(5,886.25)	1,685.67	2,872.07	11,168.08
3	Profit / (Loss) after Tax	789.20	(4,512.27)	1,197.68	2,426.83	8,283.42

By Order of the Board

Place: New Delhi Dated: May 16, 2023

Bimlendra Jha **Managing Director**





CLASSIFIEDS

SHOPPING & RETAIL

FOR SALE EQUIPMENT & MACHINERY OF HAIR OIL PLANT IN KUNDLI

Production Capacity – 20,000 L / Day

Product Variants -Pouches and 50 MI – 1L bottles

Storage Tank - All of SS 304, Total Capacity - 2,50,000 L

Pouching Machines

Automatic Bottle Filling, **Capping and Labelling Machines**

nterested parties can mail to: oilplant.2023@gmail.com

ACADEMIC

SHAHEED CAPT D K KHOLA COLLEGE

OR WOMEN ZAINABAD (REWARI) -123411

Approved from Director of Higher Education, Chandigarh and

Email- kholawomencollege@gmail.com ontact No. 01281-248530, 9416382959,

Required following staff

Assistant Professors for B.A, B.Com

B.Sc (Med & N.Med) & B.Sc Hons Physics): for each subject 01 English,

ndi, History, Political Science, Geography

ciology, Sanskrit, Public Administration

statistics, Business Management, Accountancy, Physics, Chemistry, Biology, Zoology, Botany,

mputer & Environmental Study

Office Superintendent Accountant, Head

Clerk, Clerk, Computer Data Operator, Peon,

Mali, Cleaner, Chokidar and Lab Attendant. Apply for the above posts within 21 days and

send a copy of your resume with documents to the Dean Colleges, IGU, Meerpur (Rewari).

ifications and salary as per UGC/DHE/IGU

Meerpur (Rewari) norms. Chairman

Lt . Col. Mehar Little Angels Sr. Sec. School B5 Block,

Paschim Vihar, New Delhi-6

Ph: 25268053, 25275108

Immediately requires

PGT- Physics, Maths,

Business Studies,

Computer Science.

Informatics Pratices,

Economics.

ology, Economics, Mathematics and

Principal- 01

on- Teaching staff:

EMPLOYMENT

ACADEMIC

F-10/15, Vasant Vihar, New Delhi - 110057 Ph.: 26149082 /26149371 (Recognized & Affiliated to C.B.S.E.- Affiliation Code 2730139) Website: www.sbdav.com Applications are invited for the following posts:

P.G.T : Physics Post Graduate in the subject with B.Ed. P.G.T.: Commercial Art Applied Art B.F.A. / M.F.A

(Preferably Applied Art) P.R.T.: General Graduate / Post Graduate with B.Ed. CTET Qualified

Graduation and B.Ed. in Special Education, RCI certified

Only candidates with First Division / High Second Division passed from Recognized University need apply on prescribed Form available on school website www.sbdav.com and deposit the same with Rs.200/- at school reception between 8:30 a.m. and 12:00 noon on all working days up to

Only short-listed candidates will be called for interview. PRINCIPAL

ACADEMIC

DAY PUBLIC SCHOOL 23117/43091195 REQUIRES

- Social Studies, Counselling Psychologist Counselor, Science (Physics) RT - Hindi, English, Social Studies, Maths, Computer Science, Physical Education, Science

es - Badminton, Basket Ball (Preferably from NIS) escribed application form is available on school website www.daysreshtha.com and should be submitted within 07 days at the School Reception.

a) Qualification and age as per CBSE norms) 55% and above in grad. post-grad. with B.Ed./NTT (as applicable)

c) CTET is compulsory for PRT d) Rest of the details are available on school website Principal

Aadharshila Vidyapeeth (Recognized and Affiliated to CBSE

Tel.: 27316362, 27311222

- PRIMARY COORDINATOR ■ PGTs - (English, Informatics Practices) ■ TGTs - (Social Studies)

= ART TEACHER = SPECIAL EDUCATOR VIDEO & GRAPHIC DESIGNER MUSIC VOCAL

he candidate should have good academic record with the elevant qualifications and ninimum 3 yrs of experience. Please submit your Resume at the School Reception or via Email to info@aadharshilavidyapeeth.org with all supporting documents experience certificate and ent passport-size photograph th in 7 days addressed to the

Head of School. Aadharshila Vidyapeeth, CD-Block, Pitampura, Delhi

MATRIMONIALS

GROOMS WANTED

DOCTOR

ALLIANCE FOR a Aggarwal fair girl, vijkrishan@gmail.com or 9958447341

BRIDE WANTED

BRAHMIN

WANTED BRIDE

Handsome Brahmin Boy, Born 1991, 5'8". **MBA from Stanford** University (USA), BTech (CSE) from NIT, **Double Gold Medalist Heading Family Business Group of Companies** and Largest Group of Colleges in Central India Bhopal Based. Nuclear family of

IITians/IIMians. Mob.: 9302972956

RAJPUT

SUITABLE MATCH for Noida based UITABLE MATCH for Notice based Rajput Boy born in July 1987, Fair, 5'-11", Heavy Built, Graduate IT Professional earning 30 LPA, Father Class-I Senior Gazetted Officer(Rtd), Mother M.A, B. Ed, ex Kendriya Vidyalava teacher Looking for Vidyalaya teacher. Looking for an educated beautiful girl from good family. Contact with photo at cnitmat@gmail.com Mobile: 9650767975

Readers are recommended to make all enquiries and seek appropriate advice before acting on any advertisement appearing in this publication. Any subscriber sending money, incurring any expenses or acting on any medical recommendations or entering into any commitment in relation to any advertisement published in this publication, shall do so entirely at his/ her discretion, intelligence and risk. The Company, Publisher or any of its employees do not vouch for any claims made by the Advertisers of products and services and shall not be held liable for any damages, loss, consequences, suffered by any person on account of relying on such advertisements.

हिन्दुस्तान

Hindustan Media Ventures Limited

CIN: L21090BR1918PLC000013 Registered Office: Budh Marg, Patna - 800001, India Tel: +91 612 222 3434 Fax: +91 612 222 1545

Corporate Office: Hindustan Times House, 2nd Floor, 18-20, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi - 110001, India Tel: +91 11 6656 1608 Fax: +91 11 6656 1445

Website: www.hmvl.in E-mail: hmvlinvestor@livehindustan.com									
-		(INR in Lakhs	except Earnings	per share data)					
Statement of Audited Consolidated Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2023									
	Quarter Ended		Year	Ended					
March 31, 2023* Audited	December 31, 2022 Un-audited	March 31, 2022* Audited	March 31, 2023 Audited	March 31, 2022 Audited					
18,813	18,157	19,721	71,340	66,920					
947	(427)	799	(5,642)	4,733					
947	(427)	799	(5,642)	4,733					
1,208	(68)	207	(3,809)	4,059					
(2,839)	146	(3,451)	(11,424)	483					
7,367	7,367	7,367	7,367	7,367					
			140,196	151,615					
24,239	24,239	24,239	24,239	24,239					
152,276	150,980	155,910	152,276	155,910					
5,697	23,618	11,729	5,697	11,729					
0.04	0.16	0.07	0.04	0.07					
	quarter and year e March 31, 2023* Audited 18,813 947 1,208 (2,839) 7,367 24,239 152,276 5,697	quarter and year ended March 31, 2023 March 31, 2023* Audited December 31, 2022 Un-audited 18,813 18,157 947 (427) 1,208 (68) (2,839) 146 7,367 7,367 24,239 24,239 152,276 150,980 5,697 23,618	Quarter and year ended March 31, 2023	Color Colo					

Basic & Diluted *Refer Note 6 belov

Capital Redemption Reserve Debt Service Coverage Ratio (in times)

Interest Service Coverage Ratio (in times)

Earnings/(Loss) per share (of INR 10/- each)

@ Outstanding Debt comprises of current borrowings (including current maturities of long term borrowings) and non-current borrowings

Notes: The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 and Regulation 52(4) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended. The full format of the quarterly financial results are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the Company's website "www.hmvl.in".

0.20

4.85

1.64

(not annualised)

0.01

0.29

(0.09)

(not annualised)

0.10

3.72

0.28

(not annualised)

(0.57)

(2.40)

(5.17)

0.49

6.05

5.51

(INR in Lakhs)

Shobhana Bhartia

Chairpers

- For the other line items referred in regulation 52 (4) of the LODR Regulations, pertinent disclosures have been made to the Stock Exchanges (BSE and NSE) and can be accessed on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com).
- The above consolidated financial results for the quarter and year ended on March 31, 2023 were reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on May 16, 2023. The Statutory Auditors of the Company have conducted an audit of these results in terms of Regulation 33 and Regulation 52(4) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended from time to time and have issued an unmodified opinion
- The consolidated financial results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards ('Ind AS') prescribed under Section 133 of the
- Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, as amended from time to time Additional information on standalone financial results is as follows

Particulars		Quarter Ended		Year Ended		
	March 31, 2023* Audited	December 31, 2022 Un-audited	March 31, 2022* Audited	March 31, 2023 Audited	March 31, 2022 Audited	
Revenue from Operations	18,813	18,157	19,721	71,340	66,920	
Profit/(Loss) Before Tax	731	(528)	721	(6,339)	4,782	
Profit/(Loss) After Tax	980	(170)	162	(4,749)	4,356	
Total Comprehensive Income/(Loss)	(3,067)	44	(3,496)	(12,364)	780	

The figures of the quarter ended March 31, 2023 and March 31, 2022 are the balancing figures between the audited figures in respect of the full financial year and the published year to date figures upto December 31, 2022 and December 31, 2021 respectively, being the end of the third quarter of the financial year, which were

For and on behalf of the Board of Directors

May 16, 2023

3

JUBILANT

INGREVIA

New Delhi

Jubilant Ingrevia Limited

Regd. Office: Bhartiagram, Gajraula, District Amroha - 244 223 (U.P.) | CIN: L24299UP2019PLC122657 Website: www.jubilantingrevia.com | Email: investors.ingrevia@jubl.com | Tel: +91-5924-267437

Extract of Audited Financial Results for the Quarter and Year ended 31 March 2023

Consolidated Audited Financial Re					(₹ in Lakhs)	
	Quarter Ended			Year Ended		
Particulars	31 March	31 December	31 March	31 March	31 March	
Faiticulais	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	
	2023	2022	2022	2023	2022	
Total Income from operations	114498	115831	129575	477269	494936	
Net Profit before tax and exceptional items	7552	12160	11451	43671	70894	
Net Profit before tax (after exceptional items)	7552	12160	11451	43671	70894	
Net Profit after tax and exceptional items	5231	9153	6859	30750	47671	
Total comprehensive income after tax (comprising profit for the period after tax and other comprehensive income after tax)	5541	9252	7141	30990	57229	
Equity share capital	1590	1590	1590	1590	1590	
Reserves excluding revaluation reserves (other equity)	265033	263384	241722	265033	241722	
Securities Premium Account	57132	57132	57132	57132	57132	
Net Worth	266623	264974	243312	266623	243312	
Paid-up debt capital	-	-	-	-	-	
Debt Equity Ratio (in times)	0.12	0.13	0.07	0.12	0.07	
Earnings per share of ₹1 each#						
Basic (₹)	3.29	5.75	4.31	19.34	29.98	
Diluted (₹)	3.29	5.75	4.30	19.33	29.97	
Debt Service Coverage Ratio (in times)#	19.50	23.64	24.79	26.90	7.10	
Interest Service Coverage Ratio (in times)	19.50	23.64	24.79	26.90	27.91	

not annualized for the quarters

Standalone Au	udited Financ	ial Results			(₹ in Lakhs	
	Quarter Ended			Year Ended		
Deutleuleus	31 March	31 December	31 March	31 March	31 March	
Particulars Particulars	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	
	2023	2022	2022	2023	2022	
Total Income from operations	106101	109051	126188	455957	486042	
Net Profit before tax and exceptional items	5645	9457	12215	36758	67547	
Net Profit before tax (after exceptional items)	5645	9457	12215	36758	67547	
Net Profit after tax and exceptional items	3867	6794	7448	25341	45225	
Total comprehensive income after tax (comprising profit for the period after tax and other comprehensive income after tax)	3904	6750	7576	25247	45114	
Equity share capital	1593	1593	1593	1593	1593	
Reserves excluding revaluation reserves (other equity)	214264	214260	196712	214264	196712	
Securities Premium Account	57191	57191	57191	57191	57191	
Net Worth	215857	215853	198305	215857	198305	
Paid-up debt capital	-	-	-	-	-	
Debt Equity Ratio (in times)	0.26	0.28	0.20	0.26	0.20	
Earnings per share of ₹ 1 each#						
Basic (₹)	2.43	4.26	4.67	15.91	28.39	
Diluted (₹)	2.43	4.26	4.67	15.91	28.39	
Debt Service Coverage Ratio (in times)#	9.72	12.07	16.41	13.74	6.15	
Interest Service Coverage Ratio (in times)	9.72	12.07	16.41	13.74	18.20	

not annualized for the quarters

Notes:

Place: Noida

Date : 16 May 2023

- 1. The consolidated and standalone audited financial results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 16 May 2023. The audit report of the Statutory Auditors is being filed with the BSE Limited and the National Stock
- 2. The Board of Directors at their meeting held on 16 May 2023 have recommended a final dividend of ₹ 2.5 per equity share of (₹ 1 each) amounting to ₹ 3982 Lakhs for the year ended 31 March 2023 subject to approval in Annual General Meeting. During the year ended 31 March 2023, the Company has already declared an interim dividend of ₹ 2.5 per equity share (of ₹ 1 each) and hence, the total dividend for the year ended 31 March 2023 is amounting to be ₹ 7964 Lakhs i.e. ₹ 5 per equity share (of ₹ 1 each).
- The above is an extract of the detailed format of the consolidated and the standalone audited financial results for the quarter and year ended 31 March 2023 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 and 52 (4) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended). The full format of the consolidated and the standalone audited financial results for the quarter and year ended 31 March 2023 is available under Investors section of our website at www.jubilantingrevia.com and Financial Results at Corporates section of www.nseindia.com and www.bseindia.com

For Jubilant Ingrevia Limited Rajesh Kumar Srivastava

CEO & Managing Director

नई दिल्ली बुधवार

17 मई 2023

बीआईएस केयर ऐप से निर्माता की जानकारी हटाने का फैसला

हॉलमार्किंग में ज्वेलर का नाम नहीं दिखेगा

बदलाव

नई दिल्ली, हिन्दुस्तान ब्युरो। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने स्वर्ण आभूषणों की हॉलमार्किंग मामले में बड़ा बदलाव किया है। इसके तहत बीआईएस केयर ऐप में छह अंकों वाला हॉलमार्किंग आईडी नंबर डालने पर हॉलमार्किंग करने वाले ज्वेलर का नाम नहीं दिखाई देगा। इसकी जगह उसका लाइसेंस नंबर ही दिखाई देगा। यह फैसला ज्वेलर्स संगठनों की मांग के मद्देनजर लिया गया है।

दरअसल, बीआईएस ने एक अप्रैल 2023 से देश के 288 जिलों में छह अंकों वाली हॉलमार्किंग आईडी व्यवस्था लागू कर दी है। इसके तहत बीआईएस केयर एप में आईडी संख्या डालकर आभूषण और उसे तैयार करने वाले ज्वेलर की पूरी जानकारी देखने की सुविधा दी गई थी। इसके लागू होने के बाद ज्लेवरों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा रहा था। इस मुद्दे को ज्वेलरों के कई संगठनों ने अलग-अलग मंचों पर उठाया था।

वहीं. आभूषणों के वजन से संबंधित धोखाधड़ी रोकने के लिए बीआईएस केयर ऐप पर वजन की जानकारी भी जोड़ी जाएगी।

गोल्ड ईटीएफ में 124 करोड़ रूपये का निवेश आया

नर्ड दिल्ली, एजेंसी। गोल्ड ईटीएफ निवेशकों की पसंद बनकर उभरा है। अप्रैल में इन निवेश योजनाओं में 124

एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक, गोल्ड ईटीएफ से मार्च में 266 करोड़ रुपये की शुद्ध निकासी हुई थी। मॉर्निंगस्टार इंडिया के एसोसिएट निदेशक (प्रबंधक शोध) हिमांशु श्रीवास्तव ने कहा, पिछले कुछ महीनों में हमने सोने की कीमतों में वृद्धि देखी है। सोने की कीमतें बढ़ने के बीच कुछ। निवेशकों ने मुनाफावसूली की।

नई दिल्ली, हिन्दुस्तान ब्यूरो। एलन मस्क की इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला

के कई बड़े अधिकारी इस हफ्ते भारत

की यात्रा पर रहेंगे। समाचार एजेंसी

ब्लूमबर्ग ने अपनी एक रिपोर्ट में यह

जानकारी दी है। इस यात्रा का मकसद

देश में टेस्ला की गाड़ियों की सप्लाई

भारत यात्रा इसलिए भी खास है.

क्योंकि कंपनी चीन को दरकिनार कर

भारत के साथ अपने कारोबार को

आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रीत कर रही।

है। भारत यात्रा के दौरान टेस्ला के

अधिकारियों की सरकार के

गो-फर्स्ट एयर के

खिलाफ एक और

कंपनी की अपील

नई दिल्ली, एजेंसी। विमान पट्टे पर

देने वाली तीन कंपनियों के बाद

आयरलैंड की इंजन लीजिंग फाइनेंस

कंपनी ने भी गो फर्स्ट की दिवाला

कार्यवाही के खिलाफ अपीलीय

इंजन लीजिंग फाइनेंस एक प्रमुख

इंजन वित्तपोषण और पट्टे पर देने वाली

कंपनी है। यह जापान की मित्सुबिशी

एचसी कैपिटल इंक की समूह इकाई

है। एनसीएलएटी की दो सदस्यीय पीठ

ने मंगलवार को इंजन लीजिंग फाइनेंस

की अपील पर सुनवाई के बाद अपना

न्यायाधिकरण में अपील की है।

टेस्ला के अधिकारियों की यह

चेन को मजबूत करना है।

टेस्ला के अधिकारी इस

हफ्ते भारत की यात्रा करेंगे



कई छोटे और रिटेल ज्वेलर्स अपने लिए आभूषणों की खरीद बड़े होलसेलर और निर्माता से करते जो भी आभूषण तैयार करके साथ दिखेगा। ज्वेलर संगठनों को इस पर आपत्ति थी। उनका कहना

था कि छोटे ज्वेलर से गहने खरीदने पर उसका नाम हॉलमार्किंग में नहीं दिखता है। इससे ग्राहकों में विश्वास का संकट पैदा हो रहा था। कई ग्राहक छोटे ज्वेलर के पास न जाकर सीधे होलसेलर या बड़े निर्माता के पहुंच रहे थे। इसके चलते छोटे ज्वेलरों का व्यापार प्रभावित होने की आशंका थी।

अफसरों से की थी बैटक

इसे लेकर इसी वर्ष 24 मार्च को ज्वेलर्स संगठनों ने उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के सचिव रोहित कुमार सिंह के साथ बैठक भी की थीं। इसमें उन्होंने अपनी आपत्तियों से अवगत कराया था। इसके बाद बीआईएस केयर ऐप से ज्लेवर का नाम हटाने का फैसला लिया गया।

यह भी बदलाव होगा

आईओसी भी घरेलू

सीएनजी-पीएनजी

नर्ड दिल्ली, एजेंसी। सरकारी तेल

कंपनी इंडियन ऑयल ने लोगों के घरों

में सीएनजी और पीएनजी के कनेक्शन

देना शुरू कर दिया है। जल्द ही ये

कंपनी की योजना लगभग 1.5

करोड़ लोगों को सीएनजी और पीएनजी

कनेक्शन देने की है। एलपीजी के

मुकाबले सीएनजी और पीएनजी का

कनेक्शन फायदमंदे हो सकता है। ये

दोनों ही ईंधन एलपीजी की तुलना में

काफी सस्ते पड़ते हैं। ये अन्य ईंधन

विकल्प के मुकाबले 30 प्रतिशत तक

जा रहा है कि इस बैठक में प्रधानमंत्री

नरेंद्र मोदी के कार्यालय के अधिकारी

इस बैठक में टेस्ला के कार मॉडलों

के लिए पुर्जों की स्थानीय आपूर्ति पर

चर्चा होगी। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों

की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है

और टेस्ला इसका फायदा उठाना

एसजीएक्स निफ्टी

का नाम बदलकर

गिफ्ट निफ्टी होगा

नई दिल्ली, एजेंसी। शेयर बाजार

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई)

ने मंगलवार को कहा कि एसजीएक्स

निफ्टी को तीन जुलाई से गिफ्ट निफ्टी

के नाम से जाना जाएगा। सिंगापुर

एक्सचेंज के सभी ऑर्डर मिलान को

लेकर एनएसई आईएफएससी में

एनएसई ने कहा कि सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण (एमएएस) और

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र

प्राधिकरण से नियामकीय मंजूरियां

मिल गई हैं। तीन जुलाई से यह गिफ्ट

स्थानांतरित किया जाएगा।

भी शामिल होंगे।

कनेक्शन देगी

देशभर में मिलने लगेंगे।

ऐप से आभूषण के निर्माण की तिथि की जानकारी भी हटाने की तैयारी है। इसका कारण बताया जा रहा है कि गहने बिकने में कुछ माह या साल लग जाते हैं। ऐसे में खरीदारों द्वारा निर्माण की तिथि जानने पर उसे नहीं

बीआईएस केयर ऐप में अब छह अंकों वाला हॉलमार्किंग आईडी नंबर

ऐप में अब यह दिखेगा

डालने पर ज्वेलर की पंजीकरण

संख्या, हॉलमार्किंग सेंटर का नाम,

उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, पता और गहने का प्रकार, हॉलमार्किंग की तारीख और उसकी शुद्धता दिखेगी। ज्वेलर का नाम नहीं होगा।

जीएसटी में फर्जीवाड़े की धरपकड़ शुरू आंकड़ा विश्लेषण का सहारा लिया जाएँगा नई दिल्ली, एजेंसी। फर्जी जीएसटी



फर्जी पंजीकरणों की पहचान के लिए जीएसटीएन पर विस्तृत आंकड़ा विश्लेषण और जोखिम मानकों का सहारा लिया जाएगा। फर्जी पंजीकरण की जानकारी मिलने के बाद संदिग्ध जीएसटी पहचान नंबर के सत्यापन के लिए तय अवधि में कदम उठाया

जाएगा। अगर करदाता काल्पनिक पाया जाता है तो उस पंजीकरण को निरस्त करने के लिए फौरन कदम उठाए जाएंगे। कानुन के अनुसार, पंजीकृत व्यापारियों और व्यवसायों को अपने व्यापार साइन बोर्ड पर जीएसटी पंजीकरण संख्या और परिसर में पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदर्शित करना होगा।

ओएनजीसी फाउण्डेशन

स्कॉलरशिप (छात्रवृत्ति) योजना प्रस्तुत करता है : I. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए स्कॉलरशिप स्कीम — 1000

॥।. सामान्य/ईडन्यूएस श्रेणी के छात्रों के लिए स्कॉलरशिप योजना – 500 इंजीनियरिंग, एमबीबएस में प्राफेशनल कोर्स और एमबीए, जियोलॉजी में मास्टर डिग्री का कोर्स करने वाले प्रतिभावान अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य/ईडब्ल्यूएस श्रेणी के छात्र प्रत्येक को रु 48,000 / – प्रति वर्ष की राशि के लिए प्रत्येक योजना में स्कॉलरशिप दिया जाएगा। स्कॉलरशिप का 50% छात्राओं के लिए आरक्षित है।

प्रचा जाएगा। रकालप्राराप का 50% छात्राआ के लिए औरप्रक्षेत है। यह रकॉर्रिशप केवल उन छात्रों के लिए औरय है जिन्होंने शैक्षणिक वर्ष 2022—23 में दाखिला ले लिया है। आवेदकों का चयन प्रत्येक निर्धारित अध्ययन पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित अर्हता परीक्षा में प्राप्त एकीकृत अंको के आधार पर किया जाएगा।

आवेदन www.ongcscholar.org पोर्टल पर 23.05.2023 से प्रस्तुत किया जा सकता है।

अधिक जानकारी एवं आवेदन् के प्रारूप के लिए, कृपया ओएनजीसी फाउण्डेशन की वेबसाइट

www.congescriotal.org प्रवेच 'टिप्पणी : (महत्त्वपूर्ण) आवेदकों को सलाह दी जाती है कि दस्तावेजों को अपलोड करते समय एवं आवेदन जमा करते समय केवल तेज एवं स्थायी वाई—फाई कनेक्शन्स का उपयोग करें।

केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसन्धान परिषद

(स्वायत्त निकाय आयुष मंत्रालय, भारत सरकार)

जवाहर लाल नेहरू भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी अनसन्धान भवन

61-65 संस्थागत क्षेत्र, डी-ब्लॉक के सामने, जनकपरी, नई दिल्ली-110058

रिसर्च एसोसिएट (होम्यो) की नियुक्ति

केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसन्धान परिषद दिनांक 24.05.2023 (बुधवार) को प्रातः 9.30

बजे होने वाले वॉक-इन-इंटरव्यू के माध्यम से केवल अनुबंध आधार पर पारिश्रमिक रु.

47,000/-+एच.आर.ए. प्रति माह पर दो (02) रिसर्च एसोसिएट (होम्यो) को नियुक्त

नियक्ति का स्थान, अनिवार्य योग्यता, अनुभव, पारिश्रमिक आदि के बारे में विवरण परिषद

पं. दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय दिव्यांगजन संस्थान

(दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग)

भारत सरकार)

पीडीयूएनआईपीपीडी (डी) नई दिल्ली में शुद्ध रूप से अनुबंध आधार पर जूनियर इंजीनियर

(वैद्युत) की अनुबंध पर नियुक्ति के लिए संस्थान परिसर में 24 मई, 2023 को पूर्वा.

11.00 बजे एक वाक इन इंटरैक्शन के आयोजन को निर्धारित किया गया है। आयु,

(INR in Lakhs except Earnings per share data)

4 विष्णु दिगम्बर मार्ग, नई दिल्ली-110002

(सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय,

की वेबसाइट नामतः <u>www.ccrhindia.nic.in</u> पर उपलब्ध है।

अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रों के लिए स्कॉलरशिप योजना
 500

ऐसे लोग माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के मंच पर फर्जी पंजीकरण कराने के बाद उसके आधार पर धोखेबाज फर्जी रसीदों के सहारे आईटीसी के दावे करते हैं और किसी

आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 08.07.2023 है।

विज्ञापन संख्या: 67/2023-24

सीबीसी 17221/11/0008/2324

भी तरह की सेवा या उत्पाद की आपूर्ति के बगैर ही वह राशि अपने खाते में जमा करा लेते हैं। वर्ष 2022-23 में माल और सेवा कर (जीएसटी) चोरी के लगभग 14,000 मामले पकड़े गए।

दिनांक: 15.05.2023

सहायक निदेशक (प्रशा.)

निदेशक

61932 -413.24 | 18286 -112.35 जियो-बीपी ने सस्ता प्रीमियम डीजल पेश किया

मुंबई। जियो-बीपी ने मंगलवार को प्रीमियम डीजल पेश किया. जिसकी कीमत सार्वजनिक क्षेत्र की पेटोलियम कंपनियों के सामान्य डीजल से भी कम रखी गई है। जियो-बीपी का दावा है कि एडिटिव-लेस्ड प्रीमियम डीजल बेहतर माइलेज देता है। इससे प्रति ट्रक 1.1 लाख रुपये तक की बचत होगी।

वोडाफोन 11 हजार कर्मचारियों की छंटनी करेगी

नई दिल्ली। वोडाफोन ने मंगलवार को कहा कि वह लागत कम करने और वित्तीय प्रदर्शन को सुधारने के लिए 11,000 कर्मचारियों की छंटनी करने जा रही है। दुनिया की बड़ी दूरसंचार कंपनियों में शामिल वोडाफोन ने यह घोषणा अपनी वॉर्षिक आय वृद्धि 1.3 प्रतिशत रह जाने के परिप्रेक्ष्य में की है।

दिल्ली नगर निगम बागवानी विभाग (मुख्यालय)-l

ई-1 ब्लॉक, 16वां तल, डॉ. एस.पी.एम. सिविक सेंटर, जे.एल. नेहरू मार्ग, नई दिल्ली-110002

निविदा आमंत्रण सूचना सं. डीडीएच/(एचक्य)॥/एमसीडी/2023-24/डी-192/एनआईटी नं. 4. दिनांक 16.05.2023 के माध्यम से जारी निविदा सं. 2023_MCD_154272_1 के अनुसार दिल्ली नगर निगम के

ओपन जिम की एएमसी के लिए ओपन जिम उपकरणों के अनुभवी एवं वित्तीय रूप से सुदृह भारतीय विनिर्माताओं या उनके अधिकृत डीलरों या डिस्ट्रीब्यूटरों या सेवा प्रदाता सेंटर सं एकल चरण दो निविदा प्रणाली के अंतर्गत ऑनलाइन खुली निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। अनुमानित राशिः रु. 496 लाख, निविदा कीमतः रु. 2360, ईएमडीः रु. 9.92 लाख, अनुबंध अवधिः 12 माह, निविदा-पूर्व बैठकः 26.05.2023, निविदा जमा करने की अंतिम तिथिः 06.06.2023 को अप. 3.00 बजे तक है। तकनीकी निविदाएं खुलने की तिथि: 07.06.2023 को अप. 3.30 बजे। विस्तृत नियम व शर्तों के साथ ई-टेंडरिंग निविदा दस्तावेज वेबसाइ https://etenders.gov.in/eprocure/app या दिल्ली नगर निगम की वेबसाइट www.mcdonline.nic.in से डाउनलोड किये जा सकते हैं। ऑनलाइन निविदा हेल्पडेस्क नं. 011-23227413 एवं 011-23227414 हैं या ई-मेल: mcd-ithelpdesk@mcd.nic.in पर सम्पर्क करें। इस निविदा के संबंध में संशोधन, स्पष्टीकरण, शब्दि पत्र, परिशिष्ट, समय विस्तार आदि के सभी विवरण केवल दिल्ली नगर निगम की वेबसाइट पर अपलोड किये जायेंगे और अलग से समाचारपत्रों में प्रकाशित नहीं किये जायेंगे। इच्छक निविदादाता इस निविदा के संबंध में नवीनतम जानकारी के लिए वेबसाइट नियमित रूप से देखते रहें।

> उप निदेशक (बागवानी)⁄मुख्यालय-II फोन: 011-23226613

RO No. 10/DPI/MCD/2023-24







€

लोनावाला, पुणे में बैंक की संपत्ति का निपटान

भारतीय रिज़र्व बैंक, संपदा कार्यालय, मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय मावल तालुका लोनावाला - पुणे में स्थित अपनी संपत्ति के निपटान के लिए 'अभिरूचि की अभिव्यक्ति' (ईओआई) आमंत्रित करता है। ईओआई प्रस्तुत करने की तिथि 16 जून 2023 को शाम 5.00 बजे तक है।

विस्तृत विवरण के लिए, कृपया हमारी वेबसाइट <u>https://www.rbi.org.in.</u> पर जाएँ।

बैंक के पास बिना कोई कारण बताए प्राप्त हुए किसी भी या सभी आवेदनों को अस्वीकार करने का अधिकार है। क्षेत्रीय निदेशक

''पैसे का वादा करने वाले ई–मेल/एसएमएस/टेलीफोन द्वारा धोखा न खाएं''



के अधीन एक सांविधिक निकाय) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

बी-22, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-110016 टेलीफोन: 011-26534287, 26532408, फैक्स: 011-26534297,

ई-मेलः rci-depwd@gov.in विज्ञापन सं.: 1/2023

प्रतिनियुक्ति आधार पर **सदस्य सचिव,** भारतीय पुनर्वास परिषद का पद नीचे दिये गये विवरण के अनुसार नये सिरे से आवेदन आमंत्रित करने के लिए पुनः विज्ञापित किया जा रहा है:

- पद का नामः सदस्य सचिव-ग्रुप 'ए', मिनिस्टीरियल
- भर्ती का तरीकाः प्रतिनियुक्ति पर
- रिक्ति की संख्या: 01 (एक)
- वेतनमानः पे मैट्रिक्स लेवल-13, रु. 123100-215900(संशोधन पूर्व वेतनमान पीबी-4, रु. 37400-67000+ ग्रेड पे रु. 8700)
- 5. पात्रता मानदंड: केन्द्र/राज्य सरकार/विश्वविद्यालयों/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/अर्द्ध-सरकारी/स्वायत्त/सांविधिक संगठन के अधीन अधिकारी जो कि निम्नलिखित धारक हों:

(ए) (i) नियमित आधार पर समान पद, अथवा

- (ii) पे मैट्रिक्स लेवल-12, रु. 78800-209200(संशोधन पूर्व वेतनमान पीबी-3, रु. 15600-39100+ ग्रेड पे रु. 7600)में पद, ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा सहित, अथवा
- (iii) पे मैट्रिक्स लेवल-11, रु. 67700-208700(संशोधन पूर्व वेतनमान पीबी-3, रु. 15600-39100+ ग्रेड पे रु. 6600) में पद, ग्रेड में आठ वर्ष की नियमित सेवा सहित।

(बी) निम्नलिखित योग्यता धारक हों:

- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री अथवा इसके
- (ii) जिम्मेदार प्रशासनिक क्षमता में तथा दिव्यांगजन के पुनर्वास के क्षेत्र में दस वर्षीय अनुभव।

(समान अथवा कुछ अन्य संगठन अथवा विभाग में नियुक्ति के तुरंत पूर्व। धारित अन्य संवर्ग बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक

सभी प्रकार से परिपूरित निर्धारित प्रारूप में आवेदन जिसके साथ पिछले पांच वर्षों का एसीआर/एपीएआर, सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र तथा सतर्कता अनापत्ति सिंहत प्रत्यायकों/प्रमाणपत्रों की स्व-सत्यापित प्रतियां संलग्न हो, को सदस्य सचिव, भारतीय पुनर्वास परिषद, बी-22, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-110016 के पास केवल समुचित माध्यम से एम्प्लॉयमेंट न्यूज/रोजगार समाचार में इस विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 21 **दिन के अंदर** पहुंच जाना चाहिए। समुचित माध्यम के बगैर प्राप्त आवेदन प्रपत्र विचारणीय नहीं होगे। अधिक विवरण तथा आवेदन प्रारूप के लिए, कृपया परिषद की वेबसाइटः www.rehabcouncil.nic.in देखें।

सदस्य सचिव

सीबीसी 38115/12/0004/2324

आभूषण विक्रेताओं को यहां हो रही थी दिक्क्त

हैं। बीआईएस नियमों के मुताबिक बेचेगा, उसका नाम हॉलमार्किंग के किया है।

केंद्र एवं राज्यों के सभी कर विभागों

द्वारा शुरू किया गया यह अभियान 16

मई से 15 जुलाई तक चलेगा। इस

दौरान संदिग्ध जीएसटी खातों की

पहचान करने के साथ ही फर्जी बिलों

को जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन)

से बाहर करने के लिए जरूरी कदम

उठाए जाएंगे। फिलहाल देशभर में

जीएसटी प्रणाली के तहत करीब 1.39

करोड़ करदाता पंजीकृत हैं।

कच्चे तेल पर

लाभ कर शुन्य

नई दिल्ली, एजेंसी। सरकार ने

घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे

तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर

को घटाकर शून्य कर दिया है।

इसके अलावा डीजल और

विमान ईंधन के निर्यात पर इस

कर की शून्य दर जारी रखी

सरकार ने सोमवार को एक

आधिकारिक आदेश में कहा कि

ओएनजीसी जैसी कंपनियों द्वारा

उत्पादित कच्चे तेल पर विशेष

अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को

घटाकर 4,100 रुपये प्रति टन

कर दिया है। नई दर मंगलवार से

गई है।

प्रभावी है।

खरीदने के मामले सामने आ रहे थे।

द्वितीय तल. B ब्लाक. किसान मण्डी भवन. विभतिखण्ड. गोमतीनगर, लखनऊ—226010 (उ०प्र०)

प्रेस विज्ञप्ति

विद्यालयों की स्थापना की जा रही है। उक्त विद्यालयों के लिये प्रशासनिक अधिकारी एवं अध्यापकों का चयन अनुबंध के आधार पर 01 वर्ष के लिए शैक्षणिक सत्र 2023–24 हेतु किया जाना है।

तदसम्बन्ध में प्रशासनिक अधिकारी पद हेतु भूतपूर्व सैन्य राजपत्रित अधिकारी जिनकी आयु दिनांक 30.06.2023 को 50 वर्ष से अधिक न हो तथा अध्यापक पद हेतु जवाहर नवोदय विद्यालय/ सैनिक स्कूल/केन्द्रीय विद्यालय / माध्यमिक शिक्षा परिषद / उ०प्र० के पब्लिक स्कूल के अध्यापक पद से सेवानिवृत्त ऐसे व्यक्ति जिनकी आयु दिनांक 30.06.2023 को 65 वर्ष से अधिक न हो, दिनांक 31.05.2023 की रात्रि 11:59 बजे तक केवल बोर्ड की **वेबसाइट upbocw.in** पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन कर सकते है। उक्त के सम्बंध में अन्य सभी जानकारी बोर्ड की वेबसाइट upbocw.in पर उपलब्ध है।

कार्यालय अटल आवासीय विद्यालय समिति

टेलीफोन : 91-522-2723921, टोल फ्री नं0- 18001805412 ई–मेल : upbocboardlko@gmail.com, info@atalvidyalaya.org पत्रांक : ७६२–६३ / ए०वी०एस०–(२३११)–२३, दिनांक १६.०५.२०२३

उत्तर प्रदेश के 18 मण्डलों में अटल आवासीय

अटल आवासीय विद्यालय समिति।

योग्यता, अनुभव, पारिश्रमिक, नियम एवं शर्तों आदि के विवरण के लिए कृपया www.iphnewdelhi.in देखें।

सीबीसी 38103/12/0007/2324 पीडीयूएनआईपीपीडी (डी)

हिन्द्रस्तान

Hindustan Media Ventures Limited

CIN: L21090BR1918PLC000013 Registered Office: Budh Marg, Patna - 800001, India Tel: +91 612 222 3434 Fax: +91 612 222 1545

Corporate Office: Hindustan Times House, 2nd Floor, 18-20, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi - 110001, India Tel: +91 11 6656 1608 Fax: +91 11 6656 1445

Website: www.hmvl.in E-mail: hmvlinvestor@livehindustan.com

Statement of Audited Consolidated Financial Results for the guarter and year ended March 31, 2023

Particulars		Quarter Ended	Year Ended		
	March 31, 2023* Audited	December 31, 2022 Un-audited	March 31, 2022* Audited	March 31, 2023 Audited	March 31, 2022 Audited
Revenue from operations	18,813	18,157	19,721	71,340	66,920
Net profit/ (loss) for the period (before tax and/or exceptional items)	947	(427)	799	(5,642)	4,733
Net profit/ (loss) for the period before tax (after exceptional items)	947	(427)	799	(5,642)	4,733
Net profit/ (loss) for the period after tax and share in profit/ (loss) of joint venture	1,208	(68)	207	(3,809)	4,059
Total comprehensive income/(loss) for the period [comprising profit/ (loss) for the period after tax and share in profit/(loss) of joint venture and other comprehensive income (after tax)]	(2,839)	146	(3,451)	(11,424)	483
Paid-up equity share capital (Face value - INR 10/- per share)	7,367	7,367	7,367	7,367	7,367
Other equity excluding revaluation reserves as per the balance sheet				140,196	151,615
Securities Premium Account	24,239	24,239	24,239	24,239	24,239
Net Worth (as per the Companies Act, 2013)	152,276	150,980	155,910	152,276	155,910
Outstanding Debt @	5,697	23,618	11,729	5,697	11,729
Debt Equity Ratio (in times)	0.04	0.16	0.07	0.04	0.07
Capital Redemption Reserve	1	1	1	1	1
Debt Service Coverage Ratio (in times)	0.20	0.01	0.10	(0.57)	0.49
Interest Service Coverage Ratio (in times)	4.85	0.29	3.72	(2.40)	6.05
Earnings/(Loss) per share (of INR 10/- each)	(not annualised)	(not annualised)	(not annualised)		
Basic & Diluted	1.64	(0.09)	0.28	(5.17)	5.51

@ Outstanding Debt comprises of current borrowings (including current maturities of long term borrowings) and non-current borrowings

The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 and Regulation 52(4) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended. The full format of the quarterly financial results are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the Company's website "www.hmvl.in"

and can be accessed on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com). The above consolidated financial results for the quarter and year ended on March 31, 2023 were reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on May 16, 2023. The Statutory Auditors of the Company have conducted an audit of these results in terms of Regulation 33 and Regulation 52(4) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements)

Regulations, 2015, as amended from time to time and have issued an unmodified opinion

Particulars **Quarter Ended** Year Ended March 31, 2022* March 31, 2022 March 31, 2023* December 31, 2022 March 31, 2023 Revenue from Operations 66,920 Profit/(Loss) Before Tax 731 (528)721 (6.339) 4.782 Profit/(Loss) After Tax 980 (170)162 (4.749) 4,356

the published year to date figures upto December 31, 2022 and December 31, 2021 respectively, being the end of the third quarter of the financial year, which were subjected to limited review

एयर इंडिया एक्सप्रेस ने 280 पायलट भर्ती किए नई दिल्ली, एजेंसी। किफायती

अंतरराष्ट्रीय विमानन सेवा एयर इंडिया एक्सप्रेस ने हाल ही में चले भर्ती अभियान के दौरान 280 पायलट के साथ चालक दल के 250 सदस्यों की भी नियुक्ति की है।

एयरलाइन ने मंगलवार को बयान में कहा कि दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में चलाए गए भर्ती अभियान में करीब 300 पायलट ने शिरकत की जिनमें से 280 से अधिक पायलट अंतिम रूप से चुने गए हैं।

टाटा समूह के स्वामित्व वाली इस

साल अक्टूबर से ही अपने कार्यबल को बढ़ाने की कोशिश में लगी हुई थी। एयरलाइन चालक दल के सदस्यों की भर्ती के लिए देश के प्रमुख शहरों के अलावा अन्य शहरों एवं कस्बों में भी चयन प्रक्रिया संचालित कर रही है।

पहले यह एयरलाइन सरकार के मातहत संचालित होती थी लेकिन पिछले साल निजीकरण के तहत हुए सौदे के अधीन एयर इंडिया के साथ इसका नियंत्रण भी टाटा समूह के पास चला गया था।

May 16, 2023

For the other line items referred in regulation 52 (4) of the LODR Regulations, pertinent disclosures have been made to the Stock Exchanges (BSE and NSE)

The consolidated financial results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards ('Ind AS') prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, as amended from time to time. Additional information on standalone financial results is as follows:

6. The figures of the quarter ended March 31, 2023 and March 31, 2022 are the b

For and on behalf of the Board of Directors

Chairpersor